

ICRA Limited

July 13, 2020

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai 400 001, India

Scrip Code: 532835

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,

Plot no. C/1, G Block

Bandra-Kurla Complex

Bandra (East)

Mumbai - 400 051, India

Symbol: ICRA

Dear Sir/Madam,

Sub.:- Advertisement copies

Please find enclosed copies of the notice published in the following newspapers on July 12, 2020:

- 1. Financial Express
- 2. Jansatta

You are requested to take the above on record.

Regards,

Sincerely,

(S. Shakeb Rahman)

Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

दिल्ली-एनसीआर की यात्रा कंपनियों पर ईडी की छापेमारी, 3.57 करोड़ जब्त

नई दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईंडी) ने दिल्ली-एनसीआर की कई ट्र एंड ट्रैवल्स कंपनियों और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) पर छापेमारी में 3.57 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। कंपनियों पर यह छापेमारी भारत यात्रा पर आने वाले विदेशियों के ई-वीजा प्रसंस्करण में कथित अनियमितताओं के लिए की गई है।

केंद्रीय जांच एजंसी ने शनिवार को कहा कि उसने विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) के तहत नौ जुलाई को दिल्ली और गाजियाबाद में आठ स्थानों पर छापेमारी की। इंडी ने बयान

रिलायंस को चार

निवेशकों से हिस्सेदारी

के लिए 30,062

करोड मिले

में कहा कि छापेमारी की कार्रवाई कई ट्र एंड ट्रैवल्स कंपनियों के निदेशकों के आवास और कार्यालयों व उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ की गई। इस दौरान ईंडी ने 3.57 करोड़ रुपए नकद और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज व डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किया है।

ईंडी ने कहा- उसे इस बात की सचना मिली थी कि ये इकाइयां विदेशियों को ई-वीजा सेवाएं देने के नाम पर पेमेंट गेटवे के जरिए विदेश से अनधिकृत तरीके से धन प्राप्त कर रही है। एजंसी ने कहा कि शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि ऐसी दो इकाइयों को विदेशियों के भारतीय ई-वीजा के

प्रसंस्करण के लिए विदेश से 200 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। हालांकि, इन इकाइयों को सरकार की ओर से इस काम के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। ईडी ने कहा कि इसके अलावा ये इकाइयां ऊंचे मृत्य के संदिग्ध लेन-देन में भी शामिल हैं। यह तथ्य भी सामने आया है कि कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इन इकाइयों के कामकाज के प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संदिग्ध लेन-देन में भी इनकी भूमिका है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है। इन कंपनियों के निदेशकों और कार्यकारियों से पूछताछ की जाएगी।

विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 513.25 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर

मुंबई, 11 जुलाई (भाषा)।

देश का विदेशी मद्रा भंडार तीन जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान 6.47 अरब डॉलर की बड़ी वृद्धि के साथ 513.25 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इससे पूर्व 26 जन को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.27 अरब डॉलर बढ़कर 506.84 अरब डॉलर पर पहुंचा था।

आस्तियों का बढना है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियां 5.66 अरब डॉलर बढ़कर 473.26 अरब डॉलर हो गई। समीक्षाधीन सप्ताह में स्वर्ण आरक्षित भंडार 49.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 34.02 अरब डॉलर हो गया। रिजर्व बैंक के

आंकडे दर्शाते हैं कि समीक्षाधीन

सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा

पांच जून को समाप्त सप्ताह में

पहली बार देश का विदेशी मुद्रा

भंडार 500 अरब डॉलर के स्तर से

ऊपर गया था। उस समय यह 8.22

अरब डॉलर की जोरदार वृद्धि के

साथ 501.70 अरब डॉलर पहुंचा

था। विदेशी मुद्रा भंडार में तीन

जुलाई को समाप्त सप्ताह में आई

तेजी का कारण कुल मुद्रा भंडार का

महत्त्वपूर्ण हिस्सा विदेशी मुद्रा

मैक्स बूपा के प्रबंध निदेशक कृष्णनकोष में विशेष आहरण अधिकार रामचंद्रन ने कहा कि 31 से 55 साल के 40 लाख डॉलर बढ़कर 1.45 व्यक्ति के लिए 2.5 लाख रुपए की पॉलिसी अरब डॉलर जबकि आइएमएफ का हमारा प्रीमियम 2,200 रुपए है जबकि इसी में देश का आरक्षित मुद्रा भंडार उम्र के दो वयस्कों और दो बच्चों के लिए 25.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.52 अरब डॉलर हो गया प्रीमियम 4,700 रुपए है।

'सरकार 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने को प्रतिबद्ध'

नई दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा)।

सरकार 2024 तक किसानों की आय दोगनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है और एक लाख करोड़ रुपए के कृषि आधारभृत ढांचा कोष की स्थापना सहित हाल के कृषि सुधार इस दिशा में उठाए गए कदम हैं।

कृषि मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकार के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) अशोक दलवई ने कहा कि किसानों को बाधा मुक्त व्यापारिक मंच देने के लिए तीन अध्यादेशों सहित हाल के सुधारों का मकसद फसल उत्पादन के बाद की चुनौतियों से निपटने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करना है। दलवई किसानों की आय दोगुनी करने के संबंध में बनी समिति (डीएफआइ) के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने यह बात भारतीय दलहन और अनाज संघ (आइपीजीए) के एक वेबिनार में कही। क्या 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को सरकार हासिल कर लेगी, इस सवाल पर दलवई ने कहा कि हम

सौ फीसद सही दिशा में और सही रास्ते पर हैं। निश्चित रूप से आपको किसानों की आय में चृद्धि दिखाई देगी और अधिक मजबत कृषि विकास भी आप देखेंगे।

कोविड-19 संकट के बीच कृषि सधारों की घोषणा के बारे में दलवई ने कहा कि इस संबंध में लाए गए तीन अध्यादेश कृषि क्षेत्र के उदारीकरण की दिशा में सरकार के निरंतर किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के उदारीकरण का पहला बीज 2003 में बोया गया था। दुर्भाग्य से 17 सालों के बावजद सुधारों की गति अपेक्षित नहीं रही है। पिछले चार सालों में सरकार ने सुधारों को मजबूती और गति देने की कोशिश की है।

अप्रैल 2016 में गठित दलवई समिति ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई उपायों की सिफारिश की। हालांकि, सरकार ने इस साल की शुरुआत में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नामक पुस्तिका में इस समय सीमा को 2024 तक के लिए आगे बढा दिया।

29 बीमा कंपनियों को अल्पकालिक 'कोरोना कवच पालिसी' पेश करने की मंज़्री

नई दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा)। नई दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा)।

रिलायंस इंडस्ट्रीज को समूह की कंपनी जियो प्लेटफार्म्स में आंशिक हिस्सेदारी देने का सौदा करने वाले चार अन्य निवेशकों से कुल 30,062 करोड़ रुपए की प्राप्ति हो गई है। इससे पहले कंपनी ने बताया था कि उसे फेसबुक के साथ जियो प्लेटफार्म्स के शेयर के

लिए सौदे का पैसा मिल गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शनिवार को शेयर बाजार को भेजी सुचना में कहा कि उसने जियो प्लेटफार्म्स में अपनी 6.13 फीसद हिस्सेदारी को एल कैटरटोन, दि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, सिल्वर लेक और जनरल एटलांटिक को बेचने का सौदा नक्की कर लिया है जिनसे

उसे 30,062 करोड़ रुपए मिले। रिलायंस ने अपनी डिजिटल इकाई में अब तक कुल मिला कर 25.09 फीसद हिस्सेदारी को विभिन्न हिस्सेदारों को बेचा है। इसके लिए उसने फेसबुक सहित कुल 11 निवेशकों को साथ मिलाकर 1,17,588.45 करोड़ रुपए के सौदे किए हैं। कंपनी ने सबसे पहले बडे निवेशक फेसबक के साथ सौदा किया। उसने फेसबुक की पुर्ण स्वामित्व वाली इकाई जादु होल्डिंग्स एलएलसी से इस सौदे के लिए 43,574 करोड़ रुपए प्राप्त किए।

भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (इरडा) ने 29 साधारण व स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को कोविड-19 इलाज के लिए अल्पावधि कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पेश करने की अनुमति दे दी है।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच इरडा ने साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से 10 जुलाई तक कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पेश करने को कहा था। इरडा के दिशानिर्देश के अनुसार अल्पावधि के लिए पॉलिसी साढ़े तीन महीने, साढ़े छह महीने और साढ़े नौ महीने के लिए हो सकती है। इसमें बीमा राशि 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक (50,000 रुपए के गुणक में) है।

इरडा ने जिन 29 साधारण और स्वास्थ्य है बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लाने की अनुमति दी है उनमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां मसलन ओरियंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, एसबीआइ जनरल लोम्बार्ड, आइसीआइसीआइ एचडीएफसी एगीं, मैक्स बुपा, बजाज आलियांज, भारती एक्सा और टाटा एआइजी शामिल हैं। नियामक के अनुसार प्रीमियम भगतान एक बार करना होगा और परे देश में प्रीमियम राशि समान होगी।

कोरोना कवच बीमा पॉलिसी पेश करते हुए होगा जो घर में ही बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने कहा कि इलाज को तरजीह इसमें मुल कवर का प्रीमियम 447 से 5,630 रुपए देते हैं। आयर्वेद, (जीएसटी शामिल नहीं) रहेगा। यह राशि व्यक्ति होम्योपैथ समेत की उम्र, बीमित राशि और पॉलिसी की अवधि के दूसरे इलाज के हिसाब से अलग-अलग होगी। पॉलिसीबाजार विकल्प भी पॉलिसी डाट कॉम के प्रमख स्वास्थ्य बीमा अमित छाबडा के दायरे में आएंगे।

ने कहा कि ज्यादातर प्रमुख स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने नियामक के निर्देशानुसार कोरोना से संबंधित पॉलिसी शरू कर दी हैं।

कोरोना कवच पॉलिसी की शुरुआत करते हुए एचडीएफसी एगों ने कहा कि नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत सरकारी मान्यता प्राप्त जांच घर

ICRA

कोरोना संक्रमण का मामला पाया जाता है तो उसके इलाज में अस्पताल में भर्ती होने का चिकित्सा खर्च का वहन किया जाएगा। मरीज को अगर कोविड-19 के साथ अन्य बीमारी तो कोरोना संक्रमण के साथ उस पर होने वाले इलाज का खर्च भी इसके दायरे में आएगा। एचडीएफसी एगों के

में जांच के बाद

घरों में 14 दिन के देखभाल का खर्च भी शामिल है। यह

Manisha Agarwal

Managing Director

अनुसार पॉलिसी में उन लोगों के लिए

Board of Directors of ICRA Limited (the "Company") is scheduled to be held on Tuesday, July 14 2020, Inter alia, to consider and approve the audited financial results (standalone and consolidated of the Company for the quarter and year ended March 31, 2020 and to recommend dividend, any, on the equity shares of the Company for the financial year 2019-20. The above information is available on the website of the Company (www.icra.in), the BSE Limited (www.bseindis.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) S. Shakeb Rahman Company Secretary & Compliance Office

ICRA Limited

Corporate Identity Number (CIN): L749990L1991PLC042749 Registered Office: 1105, Kailash Building, 11th Floor

26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001 Telephone No.: +91.11.23357940-45 Website: www.icra.in Email ID: investora@icraindia.com

NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Regulations 29 and 47 of the Securities and Exchange Boar of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the

STANDARD SURFACTANTS LIMITED Registered Office: 8/15, Arya Nagar, Kanpur-208002 (India) Tel: 0512-2531762 E-mail: headoffice@standardsurfactants.com, Website: www.standardsurfactants.com Corporate Identity Number: L24243UP1989PLC010950 EXTRACT OF STANDALONE RESULTS FOR QUARTER & YEAR ENDED ON 31.03.2020

SI. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2020 (Audited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited)
1	Total Income from Operations	1730.3	8273.66
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	17.83	66.76
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	(4.92)	86.46
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	1.31	89.85
5	Total comprehensive Income for the period	(2.58)	85.96
6	Paid up Equity Share Capital	711.26	711.26
7	Other Equity		827.06
8	Earning per share (Face value of Rs. 10/- each):		
	1. Basic	(0.04)	1.21
	2. Diluted	(0.04)	1.21

Notes: 1. The above standalone financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on July 10, 2020. The statutory auditors have carried out an audit of these financial results.

2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone quarterly financial results are available on stock exchange websites and on For Standard Surfactants Limited

Place: Kanpur Date: 10.07.2020

Pawan Kumar Garg Chairman & Managing Director

Indiabulls

इंडियाबुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड (CIN: L45101DL2006PLC148314)

पंजीकृत कार्यालय : एम-62 एवं 63, पहली मंज़िल, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001 वेबसाईट: https://www.indiabullsrealestate.com/ ई-मेल: helpdesk@indiabulls.com फोन: 0124-6681199 फैनम: 0124-6681240

सदस्यों के लिए डाक मनपत्र तथा ई-वोटिंग की सूचना

सदस्यों को एतद् द्वारा सुचित किया जाता है कि, तिथि 7 जुलाई, 2020 के सूचनापत्र में लिखित प्रस्तवित व्यासर पर कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति लेने हेत्, जो कि द्धक मतपत्र से दूरस्व ई-वोटिंग ("ई-बोटिंग") के मध्यम से की वाएगी, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 ("कंपनी अधिनियम") की धारा 108 और 110 के वाक्यानों के साथ पढ़ित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) निषम, 2014 के निषम 20 और 22 और सेबी लिस्टिन विनिषम के विनिषमत 44, संशोधनों के साथ, तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल 2020 और 15 जून 2020 को जारी किए वए सामान्य परिचन संख्या 14/2020, 17/2020 और 22/2020 ("एमसीए परिचन") के अनुसार, डाक मतपत्र सूचना तथा व्याख्यातनक कथन का प्रेषण ई-मेल / इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा, उन सभी शेयरधारकों को, जिनका नाम डिपॉजिटरी से प्राप्त हुई शुक्रवार, दिनांक 3 जुलाई, 2020, यानि कट-ऑफ तिथि, को पंतीकृत / ताभायीयों की सूची में है और जिन्होंने अपना ई-मेल डिपॉजिटरो प्रतिभावियों और केफिल टेक्नोलॉजीज प्राईबेट लिमिटेड ("केफिन्टेक" वा "आरटीए") के साथ पंजीकृत किया है, 10 जुलाई, 2020 को पूरा कर लिया है ।

एमसीए परिपन्नों के अनुसार कंपनी ने डाक मतपत्र सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में दी हैं । भौतिक डाक मतमत्र नेटिस, द्यक मतपत्र फार्मे तथा मी-पेड बिजनेस लिफाफा सदस्यों को नहीं भेजा गया है । तदनुसार, सदस्यों की सहमति या असहमति केवल ई-वीटिंग प्रणाली के माध्यम से ही होगी । इसलिए, जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दी नई प्रक्रिया कर पालन करके अपने ई-सेल पते पंजीकृत करें ।

- इस हाक मतपत्र पर दूरस्थ ई-जोटिंग के लिए, जिन शेयरधारकों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और द्धक मतपत्र नेटिस प्राप्त नहीं किया है, वह अस्त्राची रूप से अपने ई-मेल परे केफिटैक के सन्न लिक https://karisma.kfintech.com/emailreg पर क्लिक करके तथा निर्दिष्ट प्रक्रिया वर पालन करके पंजीकरण कर सकते हैं । ई-मेल पर्ते के सफल पंजीकरण के बाद, शेयरधारक को डाक मतपत्र सूचना तथा दूरस्य ई-बोर्टिंग प्रक्रिया प्राप्त होगी तथा ई-बोर्टिंग करने के लिए यूजर-अइंडी और पासवर्ड भी प्राप्त होगा । किसी भी प्रश्न के मामले में शेयरधारक einward.ris@kfintech.com को लिख सकते है ।
- 2) यह स्पष्ट किया जाता है कि. ई-पेल पते के स्थायी पंजीकरण के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि तह इलेक्टॉनिक शेयरभारिता के संबंध में, संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभाषियों के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ आपने ई-मेल परे को पंजीकृत करें, और भीतिक शेयरधारिता के संबंध में कंपनी के रजिस्टार और शेयर टांसफर एकेंट केफिन टेक्नोलोकील माईबेट लिपिटेड, ग्रेलेनियम, टॉबर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, मन्नीबॉली, फद्दनाॅशियल डिस्ट्रिक्ट नानकरामगुद्धा, हैदराबाद-500032, भारत, द्वारा निर्भारित प्रक्रिया का पालन करें ।
- जिन शेबरधारकों ने पहले से ही अपना ई-मेल पता पंजीकृत किया है, उनसे अनुरोध है कि, वह अपने ई-मेल पते को अपने डिपॉजिटरी वित्तभागियों /कंपनी के रजिरहार और शेवर हांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलोजीज प्राईबेट लिमिटेड के साथ सत्यापित करें ताकि नोटिस / दस्तावेज / वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनके ई-मेल पते

कंपनी ने शेयरभारकों को ई-बोर्टिंग सुविधा प्रदान करने के लिए **क्रेफिन्टैंक** की सेवाएं ली है । शेयरभारकों से अनुरोध है कि वह हाक मतपत्र में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़े और केवल ई-वोटिंग के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति दर्ज करें । इतेक्ट्रॉनिक मध्यम से मतदान सोमवार, 13 जुलाई, 2020 को सुबह 10:00 शुरू होगा और मंगलवार, 11 अगस्त, 2020 को शाम 5 बजे समाज होना । मंगलवार, 11 अगस्त, 2020 को शाम 5 बजे के बाद इलेक्ट्रोनिक मध्यम से मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी । ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के मतदान के अधिकार, 3 जुलाई, 2020 की कट-ऑफ विधि के अनुसार, समदल इंक्किटी शेयर पूंजी में उनकी शेपरधारिता के अनुपात मे होना । द्वाक मतपत्र नेटिस कंपनी की वेबसाईट (https://www.indiabullsrealestate.com), केफिन्टैक की वेबसाईट (https://evoting.karvy.com) और स्टॉक एक्सवेंव (एनएसई और वीएससी) की वेबसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

परिचाम, स्कृटिनाईकर रिपोर्ट के साथ, बुधवार, 12 अगस्त, 2020 को शाम 5 बजे तक घोषित किए जाएंने और कंपनी की वेबसाईट https://www.indiabullsrealestate.com और केफिन टेक्नोलोजीन प्राईवेट लिमिटेड की वेबसाईट यानी https://evoting.karvy.com पर भी टपलब्ब रहेंचे तथा स्टॉक एक्सचेंजों को भी स्चित किया जाएगा, जहाँ कंपनी के शेयर स्चीकद हैं।

बोटिंग से संबंधित किसी प्रश्न या शिकायत होने पर आम अंशधारकों के लिए 'अवसर पूछी जानेवाली मश्नाजली' (FAQs) वा 'ई-वोटिंग पुस्तिका' (e-voting user manual) देख सकते हैं जो https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध है, य केफिन्टैक को einward.ris@kfintech.com य दूरभाष संख्या 1800 3454 001 पर या श्री. रवि तेलकर, कंपनी सचिव को helpdesk@indiabulls.com पर या दरभाष संख्या 0124-6681199 पर संपर्क कर सकते हैं।

स्वान : मुंबई

दिनांक : 10 जुलाई, 2020

इंडियाबुल्स रिबल इस्टेट लिमिटेड के तिए इस्ताक्षरत रवि तेलकर कंपनी सचिव

सांगल पेपर्स लिमिटेड (CIN-L21015UP1980PLC005138) पंजी. कार्यालय: ग्राम भैंसा, 22 कि.मी. स्टोन, मेरठ, मवाना रोड, मवाना, उ.प्र.-250401 PHONE: 01233-271515, 271137, e-mail: sangalinvestors1980@gmail.com, website: www.sangalpapers.com 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही तथा सर्घ के लिये अंकेक्षित परिणामों का विसरण

		समा	व विमाही के वि	लिये	HARR	: वर्ष
	विवरण	31.03.20 (अकेक्सित) (रिप्पणी 4 देखें)	31.12.19 अनेकेक्स	31.03.19 अंकेक्षित (टिप्पणी 4 देखें)	31.03.20 (अंकेक्षित)	31.03.19 (अंकेशित)
1	प्रचलनों से राजान	2,752.20	3,197.16	3,548.63	12,568.74	14,823.40
2	এন্ থাব	53.24	15.81	21.61	83.05	114.96
3	कुल और (1+2)	2,805,44	3,212,97	3,570.24	12,651.79	14,938.3
4	व्यव					
	क) खपन सामग्री की लागत	2,357.43	2,471.25	3,078.44	10,652.82	12,277.9
	छ) व्यापार में भंदार में क्रय	0.03	-	4.13	13.60	304.4
	 ग) तैयार स्वामक्री, प्रवति में कार्य तथा व्याचार में चंदार की इन्येन्टरीज में चरिवर्तन 	(9.44)	137.22	6.42	2.79	(218.65
	प) कर्मचारी लाग व्यव	181.71	200.74	208.67	775.52	747,4
	ह) वित्तीय लागतों	47.01	52.72	22.52	196.73	167.2
	न) मृत्यहास तथा परिशोधन न्यय	31.86	35.76	31.96	129.32	117.8
	छ) अन्य व्यव	164.91	174.92	192.67	690.62	809.5
	कुल व्यव	2,773.51	3,072,61	3,544.81	12,461.40	14,205.7
5.	विशिष्ट मर्दो तथा कर से पूर्व लाभ(सनि) (3-4)	31.93	140.36	25.43	190.39	732.6
6	থিগিত নহা	-	-			8
7	कर से पूर्व लाग (5+6)	31.93	140.36	25.43	190.39	732.6
8	कर स्वय					
	1) आस्थित कर	32,84	0.22	17.16	33.14	154.5
	2) एमएटी सत्त्व अधिकारिता	(31.78)	-	(41.35)	(31.78)	(41.35
	3) आस्थांवत कर	(15.56)	9.54	11.66	8.76	5.7
9	अथिय के लिये लान ((7-8)	46.43	130.60	37.96	180.27	613.6
10	अवरुद्ध प्रवालनों से लाभ/(इस्ति)	-	-		-	2
11	अवसद्ध प्रचालनों के कर से स्थय	· · ·	+	18	5	1 8
12	अवकद्ध प्रकालनों में लाभ/(हानि) (कर से बाद) (10-11)	-	-			2
13.	এলচি ম লাব	46.43	130.60	37.96	180.27	613.6
14	अन्य व्यापक आय (ओसीआई)- निवल करो	(5.79)	3.26	6.06	(3.10)	3.8
15	अन्य व्यापक आ य पर प्रभावी आयकर	-	-			
16	कुल व्यापक आय (13-14-15)	40.64	133.86	44.02	177.17	617.4
17	प्रदश इक्किटी सेवर पूंजी रू. 10/- प्रति का	130.73	130.73	130.73	130.73	130.7
18	आप प्रति इंक्लिटी शेवर					-
	(1) मृतः	3.55	9,99	2.90	13.79	46.9
	(2) वरलः	3.55	9.99	2.90	13.79	46.9

3.55

विवरण	31,03.20 31,03.19		विवस्प	31.03.20	24.42.40	
idata	खो असे	को अमेकिश्व	Intercent	को श्रोकेशिन	31.03.19 को अफेधिन	
परिसम्पत्तियाँ			चल्- देवताएँ			
गैर-चाल् परिसम्पन्तियाँ	200000000	08/8/930				
क) सम्पत्ति, संयोत्र तथा उपकरण	2,964.59	2,810.98	क) वित्तीय देवताई			
छ) प्रगति में पूँजीवत कार्य	-	31.98	415 may			
ग) चित्तीय परिसम्पवित्यौ			(i) दशर	1,252.33	1,000.89	
(i) 項目	16.59	16.59	(ii) ट्रेड रिसीवेबल्स			
ष) अन्य गैर-चाल् परिसम्बन्तिर्वा	61.87	47.35	(11) 26 ((20)44)			
कुल गैर-परिसम्पतियाँ	3,043.05	2,906.90	- सुक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों की			
चारन् परिसम्बन्धियाँ						
क) इन्वेन्टरीज	1,348.06	1,572.80	अवउटस्टैंडिंग देवताएँ	72.22	109.40	
ख) विसीव परिसम्पत्तियाँ	1855000	27849350		93355		
(i) ट्रेड रिसीयेथल्स	2,272.67	2,230.36	- सूक्ष्म उद्यमी तथा लघु उद्यमी के अतिरिक्त			
(ii) नगद तथा नगदी के समान	26.23	27.53	केडीटरों की आउटरटैंटिंग देवतारें			
ग) चालू कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)	54.69	38.22	कडारत का आस्टाराडण इपतार	815.32	1,143.96	
य) अन्ये चाल् परिसम्पन्नियाँ	109.97	72.14	(iii) अन्य चालु यितीय देवताएँ	291.29	227.75	
कुल बालू परिसन्पनियाँ	3,811.62	3,941.05	(iii) and add trust danc	241.25	227.73	
कुल परिसम्पतियाँ	6,854.67	6,847.95	स्त) अन्य चाल् देवताएँ	54.84	96.11	
इक्कियटी तथा देवनाएं		777		4.000	3500	
इविवटी			 मंबिप्त कालिक प्रांचीजन्स 	26.50	17.33	
क) इकिवटी शेवर पूंजी	130.73	130.73				
ख) जन्म इनिवटी	3,186.60	3,009.43	थ) चालू प्रदत्त कर देवताएँ (निवल)			
कुल इक्विटी	3,317.33	3,140.16	1985.			
र्गर-चाल् देवताएँ	200000000	14.0000.00000000				
क) चित्तीय देवताएँ			कल चाल देवताएँ	2,512.50	2,595.44	
(i) 3885	625.10	703.77	The and same	2,012.00	41070/94	
छ) प्रविक्त	83.11	67.84	कुल देववाएँ	3,537,34	3,707.79	
ग) आस्थिंगत कर देवताएँ (निचल)	316.63	340.74	**************************************	500000000000000000000000000000000000000		
कुल गैर-वालु देववाएँ	1,024.84	1,112,35	कुल इक्किटी एवं देवताएँ	6,854.67	6,847,95	

. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटो हारा समीक्षा तथा सिफारिश की गई तथा इसलिए 10 जुलाई, 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल हारा

- इन विशेष परिचामों को कम्पनी अधिनियम, 2013 को पारा 133, यथा संभव लागू होने वाली सीमा तक, के अंतर्गत निर्दिष्ट कम्पनी (भारतीय लेखा मानक)
- नियमायली, 2015 (इंड ए एस) के अनुसार तैयार किया गया है। इंड एएस 108- प्रचालन खंडों के अनुरूप तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा जारी की जा रही प्रचालनों की समीक्षा के आधार पर कम्पनी का प्रचालन पेपर प्रॉडक्टेस
- के निर्माण के अंतर्गत आता है जिसे प्रवंधन हास विवरण देने योग्य एक मात्र खंड माना गया है। 4. 31 मार्च, 2020 तथा 2019 को समाप्त तिमाहों के ऑकड़े सम्पूर्ण विन्न वर्षों तथा क्रमशः 31 दिसम्बर, 2019, 2018 को समाप्त नी माही के प्रकाशित आंकड़ों,
- वो सीमित समीक्ष के अधीन थे, के संदर्भ में अंकेक्षित आंकटों के बीच अंतर का प्रतिनिधाय करता है। . सम्पूर्ण देश में कोविड 19 महामारी के प्रसार तथा मार्च, 2020 की अंतिम तिमाही में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण कम्पनी को उधारों पर व्यान तथा
- कर्मचरियों के वेतन आदि जैसी निर्धारित लागत पर आनुपातिक रूप से हानि का वहन करना पट्टा।
- 5. जन. 2020- मार्च 2020 की तिमाही के दौरान अभोलिखित शेवरधारकों को दुष्तिकेट शेवर प्रमाण पत्र जारी किया गया जैसा कि नीचे वर्षित हैं।

	*****			ger services
1-	13235	800	जय किशार	8181, 10709
2.	6944	40	एम बसवराजणा	8924

विवरण		THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	
	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेशित	अंकेशित	
प्रचालनों से बिक्की/ राजस्व (जैमा कि निपोर्ट किया गया)	2752.20	3197.16	3548.63	12568.74	14823.40	

8. उसे चाल अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिये जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि के आंकड़े पुनवर्गीकृत किये गये हैं।

स्रागल पेपर्स लिमिटेड के लिवे तथा उसकी ओर से

हिमाश सांगल स्थानः मवाना प्रबंध निदेशक (DIN-00091324) तिथि: 10 जुलाई, 2020

SVAM SOFTWARE LIMITED CIN:- L65100DL1992PLC047327 PH.: 011-40363174 "224 G/F Swayam Seva Co-Operative Housing Society Ltd, Jhilmil, Delhi-110032" E-mail ID: svamsoftwareltd@gmail.com, Website: www.svamsoftwareltd.in AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020 QUARTER ENDED YEAR ENDED

~	11.000,000,000,000,000				
S. No.	Particulars	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
		Un-Audited	Un-Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	183.21	10.20	546.15	68,60
2	Net Profit / (Loss) before tax (before Exceptional/ Extraordinary items)	(1.99)	82.05	2.44	2.56
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax after Exceptional/Extraordinary items)	(1.99)	83.21	2.44	3.72
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Excceptional/Extraordinary items)	(3.27)	89.05	0.85	9.56
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit /Loss for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax)	(3.27)	89.05	0.85	9.56
6	Equity Share Capital	1688.90	1688.90	1688.90	1688.90
7	Reserve (Excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	0	0	0	0
8	Earning Per Share(Face Value of ₹10/- each)	0	0	0	0
a	Basic	(0.05)	0.53	0.005	0.060
	Diluted	(0.05)	0.53	0.005	0.060

The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter ended 31st March, 2020, filed with the Stock Exchanges. The full format of the financial results is available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and on Company's website www.svamsoftwareltd.in For Svam Software Limited

Place: Delhi Date: 10.07.2020

TRIDEV INFRAESTATES LIMITED

(Formerly Known as Ashutosh Paper Mills Ltd) CIN NO: L65100DL1988PLC033812 PH: 011-43206710 269 G/F Triveni Apartment Swayam Sewa CGHS Limited Jhilmil Colony Delhi East Delhi DL 110095 F-mail ID - achutochi

S.		QUARTE	R ENDED	YEAR ENDED		
No.	Particulars	31.03.2020 Un-Audited	31.03.2019 Un-Audited	31.03.2020 Audited	31.03.2019 Audited	
1	Total Income from Operations		(4.02)	1.45	1.68	
2	Net Profit / (Loss) before tax (before Exceptional/ Extraordinary items)	(2.28)	5.92	1.68	7.66	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax after Exceptional/Extraordinary items)	(2.28)	5.92	1.68	7.66	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Excceptional/Extraordinary items)	(2.18)	4.32	1.24	5.67	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit /Loss for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax)	(2.18)	4.32	1.24	5.67	
6	Equity Share Capital	652.54	652.54	652.54	652.54	
7	Reserve (Excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	-	-	-		
8	Earning Per Share(Face Value of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations)					
i	Basic	(0.030)	0.066	0.019	0.090	
ii.	Diluted	(0.030)	0.066	0.019	0.090	

The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter ended 31st March, 2020, filed with the Stock Exchanges. The full format of the financial results is available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and on Company's website www.tridevintraestates.in

For Tridev Infraestates Limited Place: New Delhi Sunil Kumar Agarwal Date: 10.07.2020 **Managing Director**



Principal Asset Management Pvt. Ltd. (Formerly known as Principal Pnb Asset Management Company Private Limited)

(CIN: U25000MH1991PTC064092) Regd. Off.: Exchange Plaza, '8' Wing, Ground Floor, NSE Building, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051. • Toll Free: 1800 425 5600 • Fax: (022) 6772 0512

E-mail: customer@principalindia.com • Visit us at: www.principalindia.com DECLARATION OF DIVIDEND

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT, the Trustee to Principal Mutual Fund has approved Friday, July 17, 2020, as the Record Date" for the declaration of dividend, subject to the availability of distributable surplus, under the Dividend Option of following Scheme(s)/Plan(s) of Principal Mutual Fund:

5000-11	Name of the Scheme(s) / Plan(s) & Dividend Distribution Frequency	Rate of Dividend per unit (*)(**) (in ₹) (Face Value ₹10)	NAV as on July 10, 2020 (₹ Per unit)
1.	Principal Balanced Advantage Fund (An Open-ended dynamic asset allocation Fund) (i) Regular Plan (Monthly) (ii) Direct Plan (Monthly)	0.0653 0.0740	13.06 14.80
2.	Principal Hybrid Equity Fund (An Open-ended hybrid scheme investing predominantly in equity and equity related instruments) (i) Regular Plan (Monthly)	0.1590	20.92

- Considering the volatile nature of markets, Trustee reserves the right to restrict the quantum of dividend up to, the per unit distributable surplus available on the Record
- ** As reduced by the amount of applicable statutory levy.
- As per the Dividend Policy, in case the Record Date falls on a non-business day, the immediately preceding business day shall be deemed to be the Record Date.

Pursuant to the payment of dividend, the NAV under Dividend Option of the aforesaid Scheme(s)/Plan(s) would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

All the unitholders under the Dividend Option of the above mentioned Scheme(s)/Plan(s) whose name appears on the Register of Unitholders of our Registrar & Transfer Agents, KFin Technologies Private Limited, as on the Record Date shall be eligible to receive the dividend.

For further information/assistance, do visit us at www.principalindia.com or e-mail us at customer@principalindia.com or call on our Toll Free: 1800 425 5600.

For Principal Asset Management Pvt. Ltd. (Formerly known as Principal Pnb Asset Management Company Private Limited) Place: Mumbai Date : July 11, 2020 **Authorised Signatory** Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

SANGAL PAPERS LIMITED (CIN-L21015UP1980PLC005138) REGD. OFFICE: VILL BHAINSA, 22KM STONE, MEERUT, MAWANA ROAD, MAWANA, UP-250 401 PHONE: 01233-271515, 271137, e-mail: sangalinvestors1980@gmail.com, website:www.sangaipapers.com

Statement of Audited Results for the Quarter and Year ended \$1st March, 2020.

		For	Year ended			
	Particulars	31.03.20 Audited (refer note 4)	31.12.19 Unaudited	31.03.19 Audited (refer note 4)	31.03.20 Audited	31.03.19 Audited
1	Revenue from operations	2,752.20	3,197.16	3,548.63	12,568.74	14,823.40
2	Other Income	53.24	15.81	21.61	83 05	114.96
3	Total Income (1+2)	2,805.44	3,212.97	3,570.24	12,651.79	14,938.36
4	Expenses					
ī	(a) Cost of materials consumed	2,357.43	2,471.25	3,078.44	10,652.82	12,277.92
	(b) Purchases of stock-in-trade	0.03	-	4.13	13.60	304,44
	 (c) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade 	(9.44)	137.22	6.42	2.79	(218.65)
	(d) Employee benefits expense	181.71	200.74	208.67	775.52	747.48
	(e) Finance Costs	47.01	52.72	22.52	196.73	167.22
	(f) Depreciation and amortisation expense	31.86	35.76	31.96	129.32	117.80
	(g) Other expenses	164,91	174.92	192.67	690.62	809.55
	Total Expenses	2,773.51	3,072.61	3,544.81	12,461.40	14,205.76
5	Profit/ (Loss) before exceptional items and tax (3-4)	31.93	140.36	25.43	190.39	732.60
6	Exceptional items	-		- 1		-
7	Profit before tax (5+8)	31.93	140.36	25.43	190.39	732.60
8	Tax expenses					
	1) Current tax	32.84	0.22	17.16	33.14	154.55
	2) MAT credit entitlement	(31.78)		(41.35)	(31.78)	(41.35)
	3) Deferred tax	(15.56)	9.54	11.66	8.76	5.76
9	Profit for the period (7-8)	46.43	130.60	37.96	180.27	613.64
10	Profit/(Loss) from discontinuing operations			-		
11	Tax expenses of discontinuing operations					
12	Profit/(Loss) from discontinuing operations (after tax) (10-11)					7.
13		46.43	130.60	37.96	180.27	613.64
14	Other Comprehensive Income (OCI) - Net of Taxes	(5.79)	3.26	6.06	(3.10)	3.80
15	Income Tax effect on Other Comprehensive Income		(7.0%)	(3)(6)	40000	50797
16		40.64	133.86	44.02	177.17	617.44
17	Paid up equity share capital of Rs. 10/- each.	130.73	130.73	130.73	130.73	130.73

			8.4.1		Rs. In Lakhs
		As at 31.03.19 Audited	Particulars	As at 31.03.20 Audited	As at 31.03.19 Audited
Assets			Current liabilities		
Non-current assets	0.004.50	0.040.00	(a) Financial liabilities		
(a) Property, plant and equipment	2,964.59	2,810.98	(i) Borrowings	1,252.33	1.000.89
(b) Capital work in progress (c) Financial assets		31.98		1,202.00	1,000.00
	16.59	16.59	(ii) Trade payables:		
(i) Loans (d) Other non-current assets	61.87	47.35	- outstanding dues of micro		
Total non-current assets	3,043.05	2,906.90			
Current assets	3,043.03	2,300.30	enterprises and small	53333	355
(a) Inventories	1.348.06	1,572.80	enterprises	72.22	109.40
(b) Financial assets	1,040.00	1,072,00	- outstanding dues of creditors		
(ii) Trade receivables	2,272.67	2,230.36	other than micro enterprises		
(ii) Cash and cash equivalents	26.23	27.53		815.32	1,143.96
(c) Current tax assets (Net)	54.69	38.22	and small enterprises	610.32	1,143.90
(d) Other current assets	109.97	72.14	(iii) Other current financial		
Total current assets	3,811.62	3,941.05	liabilities	291.29	227.75
Total assets	6,854.67	6,847.95		153000	
Equity and Liabilities		0.000.000.00	(b) Other current liabilities	54.84	96.11
Equity		seases	(c) Short term Provisions	26.50	17.33
(a) Equity share capital	130.73	130.73	(d) Current paid tax laibility (net)		
(b) Other equity	3,186.60	3,009.43			
Total equity	3,317.33	3,140,16			
Non-current liabilities			Total current liabilities	2,512.50	2,595.44
(a) Financial fiabilities	Salanta S	100000000			
(i) Borrowings	625.10	703.77	Total liabilities	3,537.34	3,707.79
(b) Provisions	83,11	67.84	7.539.633.633.6443	100000000	2000
(c) Deferred tax liabilities (net)	316.63	340.74			2222
Total non-current liabilities	1,024.84	1,112.35	Total equity and liabilities	6,854.67	6,847.95

3.55

3.55

Statement of Assets and Liabilities

9.99

9.99

2.90

2.90

13.79

13.79

46.94

46.94

NOTES:

Place: Mawana

binarmonalezozo epapr.in

18 Earning per equity share:

(1) Basic

(2) Diluted

- The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and therefore approved by the Board of Directors at its meeting held on 10th July, 2020. The financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind
- AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, to the extent applicable In line with IND AS 108 - Operating Segments and on the basis of review of operations being done by the senior management the operations of the Company fall under Manufacturing of Paper products, which is considered to be the only reportable segment
- Figures for the quarters ended March 31, 2020 and 2019, represent the difference between the audited figures in respect of full
- financial years and the published figures for the nine months ended December 31, 2019 ,2018 respectively which were subject
- Due to pandemic of Covid 19 throughout the country and nation lockdown in the last week of March 2020, the company suffer a loss proportionately on the fixed cost such as interest on borrowings and employees salary etc.
- During the quarter Jan 2020 Mar 2020. The duplicate share certificate issued of the following share holders as mentioned
- below: Old Certificate No. S. No. No. of Shares Name of Share Holder Folio No.

11/2	13233	300	Jan Manore	0101, 10103
2.	6944	40	M Basavarajappa	8924
7.	Revenue from operations for the	current year ended are o	omparable with previous periods, sa	les for the current year are net

Goods and Services Tax (GST).

Particulars	Quarter Ended 31st March 2019 Audited	Quarter Ended 31st Dec 2019 Unaudited	Ended 31st March 2019		
Sales/Revenue from operations (as reported)	2752.20	3197.16	3548.63	12568.74	14823.40

8. Figures for the previous period have been regrouped/ reclassified wherever necessary to conform to the current period's classification

Thanking you, For and on behalf of Sangal Papers Limited,

Sd/-Himanshu Sangal Managing Director DIN - 00091324

SUNDAY, JULY 12, 2020

NEWS

FE SUNDAY

Need a recapitalisation plan for banks: RBI guv

The profitability of banks had also improved during the

year, Das said. "The lockdown and anticipated post-lockdown compression in economic growth may result in higher non-performing assets (NPAs)

and capital erosion of banks,"he said. However, he mentioned that the key takeaway cannot be that there was a rise in NPA."The key takeaway is how banks are

I HDFC MUTUAL MUTUAL FUND BHAROSA APNO KA

CIN: L65991MH1999PLC123027 Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020. Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676 Fax: 022 22821144 • e-mail: cliser@hdfcfund.com • Visit us at: www.hdfcfund.com

HDFC Asset Management Company Limited

A Joint Venture with Standard Life Investments

NOTICE

NOTICE is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, the Trustee to HDFC Mutual Fund ("the Fund") has approved the declaration of dividend as under in the below-mentioned Schemes / Plans / Options of the Fund and fixed Friday, July 17, 2020 (or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day) as the Record Date for the same:

Name of the Scheme / Plan / Option	NAV as on July 10, 2020 (₹ per unit)	Amount of Dividend (₹ per unit)	Face Value (₹ per unit)
Plans launched under HDFC Fixed Maturi	ty Plans - Series 38:		
HDFC FMP 1213D March 2017 (1) - Regular Option - Normal Dividend Option	12.6908	Distributable surplus, as reduced by applicable statutory levy	10.00
HDFC FMP 1213D March 2017 (1) - Direct Option - Normal Dividend Option	13.0047		
HDFC FMP 1213D March 2017 (1) - Regular Option - Quarterly Dividend Option	10.0178		
HDFC FMP 1213D March 2017 (1) - Direct Option - Quarterly Dividend Option	10.0224		
HDFC FMP 1166D May 2017 (1) - Regular Option - Normal Dividend Option	12.7085		
HDFC FMP 1166D May 2017 (1) - Direct Option - Normal Dividend Option	12.7489		
HDFC FMP 1166D May 2017 (1) - Regular Option - Quarterly Dividend Option	10.0171		
HDFC FMP 1166D May 2017 (1) - Direct Option - Quarterly Dividend Option	10,0177		
HDFC FMP 1136D June 2017 (1) - Regular Option - Normal Dividend Option	12.6027		
HDFC FMP 1136D June 2017 (1) - Direct Option - Normal Dividend Option	12.6417		
HDFC FMP 1136D June 2017 (1) - Regular Option - Quarterly Dividend Option	10.0148		
HDFC FMP 1136D June 2017 (1) - Direct Option - Quarterly Dividend Option	10.0153		

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the Dividend Option(s) of the above Plan(s) would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

Income distribution will be done / Dividend will be paid, net of tax deducted at source (TDS), as applicable, to those Unit holders / Beneficial Owners whose names appear in the register of Unit holders maintained by the Mutual Fund / statement of beneficial ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the Dividend Option(s) of the aforesaid Plan(s) as on the Record Date.

Unitholders who have opted to receive dividend by way of physical instruments may note that the same would be dispatched once the courier / postal services resume and that due to the unprecedented COVID-19 situation as also depending on availability of courier / postal services, there may be a delay in delivery of dividend payment instruments.

For HDFC Asset Management Company Limited

Place: Mumbai Date : July 11, 2020

Authorized Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

ICICI PRILDENTIALT MUTUAL FUND

J'TARAKKI KAREIN

ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001. Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprumf.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com

Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Fixed Maturity Plan - Series 81 - 1100 Days Plan O (the Scheme)

Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited, Trustee to ICICI Prudential Mutual Fund has approved declaration of the following dividend under the dividend option of the Scheme, subject to availability of distributable surplus on the record date i.e on July 17, 2020*:

Name of the Scheme/Plans	Dividend (₹ per unit) (Face value of ₹ 10/- each) ^{\$#}	NAV as on July 10, 2020 (₹ Per unit)
ICICI Prudential Fixed Maturity Pla	n - Series 81 - 1100 Days Pla	n O
Dividend	0.0500	12.3794
Direct Plan - Dividend	0.0500	12.5044

- may be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the
- record date under the dividend option of the Scheme. # Subject to deduction of applicable statutory levy.
- or the immediately following Business Day, if that day is a Non Business Day.

Dividend will be paid to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the dividend option of the Scheme, at the close of business hours on the record date.

It should be noted that pursuant to payment of dividend, the NAV of the dividend option of the Scheme would fall to the extent of dividend payout and statutory levy (if applicable).

Suspension of trading of units of the Scheme:

The units of the Scheme are listed on BSE. The trading of units of the Scheme will be suspended on BSE with effect from closing hours of trading of July 14, 2020.

For the purposes of redemption proceeds, the record date shall be July 17, 2020. For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Place: Mumbai Date : July 11, 2020 No. 006/07/2020

Authorised Signatory

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com

BSE Disclaimer: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Scheme Information Document (SID) has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the SID. The investors are advised to refer to the SID for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited. As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id

and mobile number to support paper-less communications. To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprumf.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

From the Front Page

responding, The key takeaway as I said is the need to focus on governance, focus more on risk management, focus more on raising capital," he said. Many banks, including SBI, ICICI Bank, Axis Bank and Yes Bank, had announced plans to raise capital for strengthening their balance sheets. He also highlighted improvement in the key parameters of non-banking financial companies (NBFCs). "The gross and net NPAs of NBFCs stood at 6.4% and 3.2% as on March 31, against 6.1% cent and 3.3% as on March 31, 2019," he said. The CRAR for NBFCs, however, declined marginally from 20.1% to 19.6% during 2019-20. "While the NBFC sector as a whole may still look resilient, the redemption pressure on NBFCs and mutual funds need close monitoring," Das added. The RBI governor said Indian companies respond better in crisis, citing example of pharma companies during lockdown. He acknowledged that Covid-19 is the worst health and economic crisis in the past 100 years with unprecedented negative consequences for output, jobs and well being. He also called for unwinding of countercyclical regulatory measures after containment of Covid-19. "Post- containment of Covid-19, a very careful trajectory has to be followed in orderly unwinding of counter-cyclical regulatory measures," he said, adding that the financial sector should return to normal functioning without relying on the regulatory relaxations as the new norm.

Oriental, IRB are preferred bidders

However, another source

said, "Criteria set by the National Highway Authority of India for declaring preferred bidder were based on highest premium or lowest grant limited to 10% of the total project cost set by the authority. Since both the bidders have bid well within the prescribed criteria set by NHAI, project awards are expected to happen soon." The bidding out of the two stretches going off well should encourage the government to develop more stretches under the PPP route, the share of which in new awards has declined precipitously for nearly a decade and drawn a blank in the last two financial years.

NHAI had invited RFPs for the two stretches, totaling 132 km on the NH-19 in February. Three extensions were given for submission of final bids to July 9. Both technical and financial bids were opened Friday. Unlike engineering procurement and construction, where government bears all expenses; in BOT (Toll), investors do have skin in the game. A concessionaire can recoup his investment by collecting toll on the stretch over the concession period.

Apart from IRB Infrastructure and Oriental Structural Engineers, Ashoka Buildcon, Adani Road Transport, and PNC Infratech replied to the RFPs evincing interests. However, in the final race, the fight was between IRB Infrastructure and Oriental Structural Engineers only while others stayed off.

The two projects for which bids were invited are part of the Bharatmala project, under which the NHAI is mandated to build 34,800 km national highway stretches.

(S. Shakeb Rahman



Corporate Identity Number (CIN): L74999DL1991PLC042749
Registered Office: 1105, Kalash Building, 11° Floor
26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110 001
Telephone No.: +91,11,23357940-45
Website: www.icra.in Email ID: Investors-Bicraindia.com

NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Regulations 29 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Justino Congations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of ICRA Limited (the "Company") is acheduled to be field on Tuesday. July 14, 020, inter als, to consider and approve the audited financial results (standalone and cons of the Company for the quarter and year ended March 31, 2020 and to recommend dividend, if any, on the equity shares of the Company for the financial year 2019-20. The above information is available on the website of the Company (www.iora.in), the BSE Limited (www.iberindia.com) and

Company Secretary & Compliance Officer

OB **OBEROI**

OBEROI REALTY LIMITED Regd. Office: Commerz, 3" Floor, International Business Park, Oberoi Garden City, Off Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400063 CIN: L45200MH1998PLC114818 E-mail ld: csalpoberpirealty.com Website: www.aberoirealty.com Tel: +91 22 6677 3333 Fax: +91 22 6677 3334

Notice is bereby given that in terms of the arpyisions of SFRI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of Oberoi Realty Limited will be held on Tuesday, July 14; 2020, to, inter alia, consider and approve (i) the Audited Financial Results of the Company for the financial year ended March 31, 2020, and (iii) the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2020.

This notice is also available on the Company's website at www.oberoirealty.com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

Place: Mumbai Date: July 11, 2020 For Oberoi Realty Limited Bhaskar Kshirsagar Company Secretary



Indiabulls Real Estate Limited

CIN: L45101DL2006PLC148314 Registered Office: M - 62 & 63, First Floor, Connaught Place, New Delhi - 110 001 Website: https://www.indiabullsrealestate.com/, E-mail; belpdesk@indiabulls.com Tel: 0124-6681199, Fax: 0124-6681240

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING TO THE MEMBERS

Members are hereby informed that pursuant to Sections 108 and 110 of the Companies Act. 2013 ("Companies Act"), read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, each as amended from time to time, and the General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 22/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and June 15, 2020 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA Circulars"), the Company has completed dispatch of the Postal Ballot Notice along with explanatory statement, through e-mail/electronic mode only, on July 10, 2020, to all shareholders, whose names appeared in the register of members/ list of beneficial owners, as on July 3, 2020 (Friday) i.e. cut-off date, as received from the Depositories and who have registered their e-mail addresses with depository participants and with KFin Technologies Private Limited, the Registrar and Share Transfer Agent of the Company ("KFintech" or "RTA"), for seeking the approval of the members of the Company to the proposed resolutions mentioned in the aforesaid Notice, through postal ballot by way

In terms of the MCA Circulars, the Company has sent the Fostal Ballot Notice in electronic form only, and hard copy of the postal ballot notice along with postal ballot forms and pre-paid business envelope have not been sent to the members for this postal ballot. Accordingly, the communication of the assent or dissent of the members would take place through the E-voting system only. Therefore, those members who have not yet submitted their e-mail address are requested to get their e-mail addresses registered by following the procedure given below:

- For remote E-voting on this Postal Balliot, shareholders who have not registered their email addresses, and have not received the Postal Ballot Notice, may temporarily get. their e-mail addresses submitted with KFintech, by clicking the link: https://karisma.kfintech.com/emailreg and following the submission process as guided thereafter. Post successful submission of the e-mail address, the shareholder would get soft copy of the Notice and the procedure for E-voting, along with the user-id and the password to enable E-voting for this postal ballot. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@kfintech.com.
- It is clarified that for permanent registration of e-mail address, the shareholders are requested to register their email address, in respect of electronic holdings with the depository through the concerned depository participants, and in respect of physical holdings with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited, Selenium, Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032, India, by following due procedure.
- iii) Those shareholders who have already registered their e-mail address are requested to keep their e-mail addresses validated with their depository participants / the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited, to enable servicing of notices / documents / annual Reports electronically to their e-mail

The Company has engaged services of KFintech for providing E-voting facility to shareholders of the Company. Shareholders are requested to carefully read the instructions indicated in postal bullet notice and communicate their assent or dissent through E-voting only. Voting through electronic means shall commence from 10:00 a.m. on July 13, 2020 (Monday) and end at 5:00 p.m. on August 11, 2020 (Tuesday). Voting by electronic means will not be allowed beyond 5:00 p.m. on August 11, 2020 (Tuesday). The voting rights of the members for e-voting shall be in proportion to their shareholding in the paid-up equity share capital as on the said cut-off date being July 3, 2020. The Postal Ballot Notice can also be downloaded from the Company's website (https://www.indiabullsrealestate.com), website of KFintech (https://eveting.karvy.com), and websites of the stock exchanges (NSE

The Results shall be declared along with the Scrubnizers' Report latest by 5:00 P.M. on Wednesday, August 12, 2020 and shall be placed on the Company's website https://www.indiabulisrealestate.com and on the website of KFin Technologies Pvt. Ltd. i.e. https://evoting.karvy.com., and shall be communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

In case of any queries/grievance connected with the Postal Ballot Notice or E-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads sections of https://evoting.karvy.com or contact Kfintech at einward.ris@kfintech.com or Telephone No.: 1800 3454 001 (Toil free) or Mr. Ravi Telkar, Company Secretary of the Company, at helpdesk@indiabulls.com or at Telephone No. 0124-6681199.

By Order of the Board For Indiabulls Real Estate Limited

Rayi Telkar

Company Secretary

Scanned by TapScanner

Place: Mumbai

Date: July 10, 2020